

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1821
द्वारा : श्री एस.पी.वाई.रेड्डी
उत्तर देने की तारीख : 20.07.2004
शीर्षक : तेलुगु भाषा की घोषणा

प्रश्न	उत्तर
<p>1821. श्री एस.पी.वाई.रेड्डी</p> <p>क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :</p> <p>(क). क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने यह अनुरोध किया है कि तेलुगु को अंग्रेजी और हिंदी के साथ केंद्र की अतिरिक्त राजभाषा के रूप में घोषित किया जाय ;</p> <p>(ख). यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?</p> <p>ग). इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और</p> <p>(घ). इस उद्देश्य हेतु संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु अन्य भाषाएं कौन सी है जिन्हें केंद्र की राजभाषा के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?</p>	<p>गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री (श्री एम.एच.गावीत)</p> <p>(क). जी, हाँ ।</p> <p>(ख). विवरण संलग्न है ।</p> <p>(ग). संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है ।</p> <p>(घ). किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।</p>

--	--

**लोक सभा के दिनांक 20.07.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1821 के भाग (ख)
के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधान मंत्री जी को भेजे गए अपने दिनांक 10.07.2003 के पत्र में यह उल्लेख किया था कि तेलुगु भारत की प्राचीनतम और अत्यंत मधुर भाषाओं में से एक है। यह भाषा इस समय देश के लगभग 14.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है जिससे यह हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अतः तेलुगु को भी राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए। विजय नगर के लोकप्रिय सम्राट कृष्ण देवराय तेलुगु को सर्वोत्तम भाषा कहा करते थे। प्रसिद्ध तमिल कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती इस भाषा की प्रांजलता तथा माधुर्य से इतना प्रभावित थे कि वे इस "सुंदर तेनुंगु" कहा करते थे। सी.पी.ब्राउन तथा बिशप काल्डवेल जैसे अंग्रेजी विद्वानों को तेलुगु इतनी भा गई थी कि उन्होंने इस भाषा के विकास तथा इसके बेशकीमती गुणों के संरक्षण के लिए महती कार्य किए। ब्रिटिश जीव विज्ञानी प्रोफेसर जे.बी.एस.हाल डेन का मानना था कि तेलुगु में वे सभी गुण हैं जो कि राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए अपेक्षित हैं। अतः अनुरोध है कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ तेलुगु को भी राष्ट्रीय राजभाषा घोषित करने के बारे में कार्रवाई करवाई जाए।